Series: JBB/3

SET - 3

कोड नं. Code No. 31/3/3

रोल नं.				
Roll No.				

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to

10.30 a.m., the students will read

the question paper only and will not

write any answer on the answer-

book during this period.



NOTE कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित Please check that this question (I) (I) paper contains 23 printed pages. पुष्ठ 23 हैं। प्रश्न-पत्र में दाहिनें हाथ की ओर दिए गए कोड Code number given on the right (II)(II)नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर hand side of the question paper should be written on the title page लिखें। the answer-book bv candidate. कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 30 प्रश्न Please check that this question (III)(III)paper contains 30 questions. कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से Please write down the Serial (IV) (IV) Number of the question in the पहले. प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। answer-book before attempting इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का (V) (V) 15 minute time has been allotted to समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न read this question paper. question paper will be distributed

विज्ञान **SCIENCE**

निर्धारित समय: 3 घण्टे अधिकतम अंक : 80

Time allowed: 3 hours Maximum Marks: 80



में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से

10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढेंगे

और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर

कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

DECK STOR DON STOR


सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए:

- (i) प्रश्न-पत्र तीन खंडों में विभाजित किया गया है क, ख एवं ग ।
 इस प्रश्नपत्र में प्रश्नों की संख्या 30 है । सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) खंड-क के सभी प्रश्न / उनके भाग (प्रश्न संख्या 1 से 14 तक) एक-एक अंक के हैं। इन प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु-उत्तरीय प्रश्न तथा अभिकथन-कारण प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर 1 शब्द अथवा 1 वाक्य में दिए जाने चाहिए।
- (iii) **खंड-ख** में प्रश्न संख्या 15 से 24 तक लघुउत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (iv) **खंड-ग** में प्रश्न संख्या 25 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 90 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (v) उत्तर संक्षिप्त तथा बिंदुवार होना चाहिए और साथ ही उपरोक्त शब्द सीमा का यथासंभव पालन किया जाना चाहिए।
- (vi) प्रश्नपत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है। तथापि प्रत्येक खंड में कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में से **केवल एक ही विकल्प का उत्तर** लिखिए।
- (vii) इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार, प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं।

खंड – क

- नोट: प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।
- (a) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) अभिकथन की सही व्याख्या है।
- (b) (A) और (R) दोनों सही है पर (R) अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।
- (d) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।



D BOX SIZED BOX SIZED SOX SIZED SOX

General Instructions:

Read the following instructions very carefully and strictly follow them:

- (i) The question paper comprises **three** Sections, **A**, **B** and **C**. There are 30 questions in the question paper. **All** questions are compulsory.
- (ii) Section A all questions / or parts (question no. 1 to 14) thereof in this section are one mark questions comprising MCQ, VSA type and Assertion–Reason type questions. They are to be answered in one word or in one sentence.
- (iii) **Section B** question no. **15** to **24** are short answer type questions, carrying **3** marks each. Answer to these questions should not exceed **50** to **60** words.
- (iv) Section C question no. 25 to 30 are long answer type questions, carrying 5 marks each. Answer to these questions should not exceed 80 to 90 words.
- (v) Answer should be brief and to the point. Also the above mentioned word limit be adhered to as far as possible.
- (vi) There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in some questions in each section. Only one of the choices in such questions have to be attempted.
- (vii) In addition to this, separate instructions are given with each section and question, wherever necessary.

Section - A

Note: For question numbers 1 and 2, two statements are given-one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below:

- (a) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of the assertion.
- (b) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of the assertion.
- (c) (A) is true but (R) is false.
- (d) (A) is false but (R) is true.

.31/3/3.

DECK SIGN BIGG SON SIGN SON SIGN SIGN SIGN SON SIGN SON SIGN SON SIGN SON SIGN SON SIGN SON SIGN SIGN SIGN SIGN

1. अभिकथन (A) : $\mathrm{CH_3OH}$, $\mathrm{CH_3CH_2OH}$ तथा $\mathrm{CH_3CH_2CH_2OH}$ समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं ।

कारण (R) : यौगिकों की ऐसी शृंखला, जिसमें समान प्रकार्यात्मक समूह होता है परन्तु एक $-CH_2$ - इकाई का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है ।

1

1

1

1

1

2. **अभिकथन (A) :** विद्युत इस्तरी और हीटर, जैसी विद्युत तापन युक्तियों में सामान्यतः मिश्रातुओं का उपयोग किया जाता है।

कारण (R): किसी मिश्रातु की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं से सामान्यतः अधिक होती है परन्तु मिश्रातुओं का अवयवी धातुओं की तुलना में निम्न गलनांक होता है।

- 3. सहसंयोजी आबन्ध किस प्रकार बनते हैं ?
- 4. विद्युत धनात्मकता की परिभाषा लिखिए।

अथवा

पहले समूह के तत्त्वों की परमाणु त्रिज्याएँ नीचे दी गई हैं:

पहले समूह के तत्त्व	परमाणु त्रिज्या (pm)
Na	86

K 231
Rb 244
Cs 282

उपरोक्त तत्त्वों में दिखाई देने वाली इस प्रवृत्ति का कारण लिखिए।

1. **Assertion (A):** Following are the members of a homologous series:

Reason (R): A series of compounds with same functional group but differing by $-CH_2$ – unit is called a homologous series.

2. **Assertion (A)**: Alloys are commonly used in electrical heating devices like electric iron and heater.

Reason (R): Resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals but the alloys have low melting points then their constituent metals.

3. How are covalent bonds formed?

1

1

1

4. Define electropositivity.

1

OR

The atomic radii of first group elements are given below:

Group-I element	Atomic Radii (pm)
Na	86
K	231
Rb	244
Cs	282

State the reason behind the observed trend in the above elements.

	म्बाई ' l ' और अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल ' ${ m A}$ ' के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध ' ${ m R}$ ' है । समान तेरोध और समान पदार्थ के $2l$ लम्बाई वाले किसी अन्य चालक का अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल कितना होगा ?
(a	Δ
(b	3 Δ
(c (d	
6. च	र प्रतिरोधकों, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध $rac{1}{2}\;\Omega$ है, का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त
वि	- या जा सकता है ?
(a	
(b	,
(c (d	
,	' धिक ऊँचाइयों पर उड़ रहे यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि मुख्यतः
7. Si	
(b	
(c	
(d	
8. क	ाई तत्त्व 'X' अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्त्व की स्थिति होगी
(a	0. 31
•) समूह 2 तथा आवर्त 3 में
(c) समूह 13 तथा आवर्त 3 में
(d) समूह 16 तथा आवर्त 3 में
	अथवा
	व 'X' जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 13 है, के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए :
(A	
`	3) इसकी संयोजकता 3 है।
	\mathcal{C}) इसके क्लोराइड का सूत्र $\mathrm{XC}l_3$ है ।
	में सही कथन हैं
(a	
(b	$(A \setminus A) = A$
(c) (A) और (C)) (A), (B) और (C)

D DOM ELOD DOM I	EN BOS DEL BOS DEL BOS DEL BOS DE LA BOS DEL	
5.	A cylindrical conductor of length ' l ' and uniform area of cross section 'A' has resistance 'R'. The area of cross section of another conductor of same material and same resistance but of length ' $2l$ ' is	
	(a) $\frac{A}{2}$	
	(b) $\frac{3A}{2}$	
	(c) 2A (d) 3A	1
3.	The maximum resistance which can be made using four resistors each of resistance $\frac{1}{2}$ Ω is	Ê
	(a) 2Ω (b) 1Ω (c) 2.5Ω (d) 8Ω	1
7.	The sky appears dark to passengers flying at very high altitudes mainly because: (a) Scattering of light is not enough at such heights. (b) There is no atmosphere at great heights. (c) The size of molecules is smaller than the wavelength of visible light. (d) The light gets scattered towards the earth.	1
3.	An element 'X' is forming an acidic oxide. Its position in modern periodic table will be (a) Group 1 and Period 3 (b) Group 2 and Period 3 (c) Group 13 and Period 3 (d) Group 16 and Period 3 OR	1
	Consider the following statements about an element 'X' with number of protons 13. (A) It forms amphoteric oxide (B) Its valency is three (C) The formula of its chloride is XCl_3 The correct statements(s) is/are (a) only (A) (b) only (B)	
	(c) (A) and (C) (d) (A), (B) and (C)	1

- 9. कोई जलीय विलयन 'A' फीनॉल्फथेलिन विलयन को गुलाबी कर देता है। विलयन 'A' में किसी अन्य जलीय विलयन 'B' को मिलाने पर गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है। विलयनो 'A' और 'B' के लिए कौन सा कथन सत्य है ?
 - (a) A प्रबल क्षारीय है तथा B दुर्बल क्षार है।
 - (b) A प्रबल अम्लीय है तथा B दुर्बल अम्ल है।
 - (c) A का pH 7 से अधिक तथा B का pH 7 से कम है।
 - (d) A का pH 7 से कम तथा B का pH 7 से अधिक है।

- 10. निम्नलिखित में से किसमें मूल पदार्थ की पहचान परिवर्तित नहीं होती है ?
 - (a) द्ध से दही बनाना
 - (b) क्रिस्टलन प्रक्रिया द्वारा क्रिस्टलों का बनना
 - (c) अँगूरों का किण्वन
 - (d) भोजन का पाचन


1

- 11. अनेक फैक्टरियाँ अपने अपिशष्टों को दो निदयों A और B में प्रवाहित कर रही थीं। इन दोनों निदयों से जल के नमूनों को लिया गया। प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि नदी A का जल अम्लीय था जबिक नदी B का जल क्षारीय था। A तथा B के निकट स्थित फैक्टरियाँ हैं -
 - (a) A के निकट साबुन और अपमार्जकों की तथा B के निकट शराब कारखानों की।


 - (c) A के निकट लैंड संचालक बैटरी निर्माण की तथा B के निकट साबुन और अपमार्जकों की ।
 - $({
 m d})$ ${
 m B}$ के निकट लैड संचालक बैटरी निर्माण की तथा ${
 m A}$ के निकट साबुन और अपमार्जकों की ।

1

12. नीचे जल संग्रहण की पारम्परिक व्यवस्था का आरेख दिया गया है । नीचे दिया गया कौन सा कथन इस पद्धति का निरूपण करता है ?




(a) यह खादिन पद्धित का आदर्श व्यवस्थापन है जिसमें A =जल संग्रहण क्षेत्र; B =खारा क्षेत्र तथा C = उथला कूप है ।



- 9. An aqueous solution 'A' turns phenolphthalein solution pink. On addition of an aqueous solution 'B' to 'A', the pink colour disappears. The following statement is true for solution 'A' and 'B'.
 - A is strongly basic and B is a weak base.
 - A is strongly acidic and B is a weak acid. (b)
 - A has pH greater than 7 and B has pH less than 7.
 - A has pH less than 7 and B has pH greater than 7. (d)
- 10. In which of the following, the identity of initial substance remains unchanged?
 - Curdling of milk (a)
 - Formation of crystals by process of crystallisation
 - (c) Fermentation of grapes
 - Digestion of food (d)

- Several factories were pouring their wastes in rivers A and B. Water samples were collected from these two rivers. It was observed that sample collected from river A was acidic while that of river B was basic. The factories located near A and B are
 - (a) Soaps and detergents factories near A and alcohol distillery near B.
 - (b) Soaps and detergents factories near B and alcohol distillery near A.
 - Lead storage battery manufacturing factories near A and soaps and (c) detergents factories near B.
 - (d) Lead storage battery manufacturing factories near B and soaps and detergents factories near A.
- A diagram of traditional water harvesting system is given below: The statement which defines the system and its parts is



This is an ideal setting of the Khadin system and A = Catchment (a) area; B = Saline area & C = Shallow dugwell

9

P.T.O.

1

- यह उथला कृप पद्धति का आदर्श व्यवस्थापन है जिसमें $A = \sigma$ ल संग्रहण क्षेत्र, $B = \sigma$ खारा क्षेत्र (b) तथा C = खादिन है।
- यह जल संग्रहण क्षेत्र का आदर्श व्यवस्थापन है जिसमें A =खादिन, B =खारा क्षेत्र तथा C = उथला कूप है।
- यह खारा क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें $A = \sigma$ ल संग्रहण क्षेत्र, $B = \sigma$ खादिन तथा $C = \sigma$ उथला कूप है। (d) 1 अथवा

वनों में एक ही प्रकार के वृक्षों को उगाने की प्रक्रिया का प्रमुख दृष्प्रभाव

- जैवविविधता पर पड़ता है जो महाविनाश का सामना करती है। (a)
- स्थानीय निवासियों पर पड़ता है जिनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार के वनों से नहीं हो पाती ।

1

1

1

1

1

- उद्योगों पर पडता है । (c)
- वन विभाग पर पड़ता है। (d)

13. प्रश्न संख्या 13(a) से 13(d) के उत्तर नीचे दिए गए अनुच्छेद और संबंधित पढ़ी गर्यी संकल्पनाओं की व्याख्या के आधार पर दीजिए:

टिहरी बाँध भारत का सबसे अधिक ऊँचा बाँध है और संसार के सबसे ऊँचे बाँधों में से एक है। टिहरी बाँध के जलाशय की क्षमता $4.0~{
m km}^3$ तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल $52~{
m km}^2$ है । इसका उपयोग सिंचाई, नगरपालिकाओं की जल आपूर्ति तथा 1000 MW जलविद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है।

टिहरी बाँध विरोध का विषय रहा है। पर्यावरण सिक्रयावादी श्री सुन्दर लाल बहुगुणा ने 1980 से 2014तक टिहरी बाँध के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया । यह विरोध शहरों के निवासियों के विस्थापन तथा दुर्बल पारितंत्र की पर्यावरणीय समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण था । इस क्षेत्र के 1,00,000 से अधिक लोगों ने अपने पुनर्वास के अधिकार के लिए दीर्घकालीन कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके कारण इस परियोजना के पूरे होने में देरी हुई।

- जलविद्युत किस प्रकार प्राप्त की जाती है ? (a)
- 1 MW की परिभाषा लिखिए। (b)
- टिहरी बाँध के निर्माण से होने वाली दो हानियों का उल्लेख कीजिए। (c)
- क्या होता है जब अत्यधिक ऊँचाई से जल टरबाइन की पंखुड़ियों पर गिराया जाता है ?



- This is an ideal setting of the Shallow dugwell system and A = (b) Catchment area; B = Saline area and C = Khadin
- (c) This is an ideal setting of Catchement area and A = Khadin, B = Saline area and C = Shallow dugwell
- This is showing Saline area and A = Catchment area; B = Khadin (d) and C = Shallow dugwell

OR

The major ill effect of mono culture practice in forests is on the

- biodiversity which faces large destruction (a)
- local people whose basic needs can no longer be met from such forests
- industries (c)
- (d) forest department

1

Answer question numbers 13(a) to 13(d) on the basis of your understanding of the following paragraph and the related studies concepts.

The Tehri dam is the highest dam in India and one of the highest in the World. The Tehri dam withholds a reservoir of capacity 4.0 km³ and surface area 52 km². It is used for irrigation, municipal water supply and the generation of 1000 MW of hydro electricity.

The Tehri Dam has been the object of protests. Environment activist Shri Sunder Lal Bahuguna led the "Anti Tehri Dam Movement" from 1980s to 2014. The protest was against the displacement of town inhabitants and environmental consequences of the weak ecosystem. The relocation of more than 1,00,000 people from the area has led to protracted legal battles over resettlement rights and ultimately resulted in the delayed completion of the project.

- (a) How is hydropower harnessed? 1
- (b) Define 1 MW. 1
- (c) Mention two disadvantages of constructing Tehri Dam. 1
- (d) What happens when water from great heights is made to fall on blades of turbine? 1

.31/3/3.

14. प्रश्न संख्या 14(a) से 14(d) नीचे दी गई तालिका पर आधारित है । इस तालिका में महिलाओं के थायरॉयड उद्दीपक हॉर्मोन (TSH) के स्तर दिए गए हैं । इनका अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए अनुच्छेद और संबंधित पढ़ी गयीं संकल्पनाओं की व्याख्या के आधार पर दीजिए ।

आयु परिसर	सामान्य (mU/L)	निम्न (mU/L)
18-29 वर्ष	$0.4-2.34~\mathrm{mU/L}$	< 0.4 mU/L
30-49 वर्ष	$0.4-4.0~\mathrm{mU/L}$	< 0.4 mU/L
50-79 वर्ष	$0.46 - 4.68 \; \text{mU/L}$	< 0.46 mU/L

थायरॉयड उद्दीपक हॉर्मोन का स्तर असामान्य होने की स्थिति में महिलाएँ रजोधर्म के समय, शिशु को जन्म देते समय तथा रजोनिवृत्ति की स्थिति में आते समय अधिक जोखिम में होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5% महिलाएँ कुछ प्रकार की थॉयरायड की समस्याओं से पीड़ित हैं जबिक इनकी तुलना में पुरुषों की प्रतिशतता 3% है। इन दावों के होने पर भी TSH का उच्च स्तर आपके हृदय रोगों के खतरों में वृद्धि कर देता है, 2013 के अध्ययन में उच्च TSH और हृदय रोगों में कोई संबंध नहीं पाया गया। परन्तु 2017 के अध्ययन में यह पाया गया कि विशेषकर अधिक आयु की महिलाओं में थायरॉयड ग्रंथिका के साथ TSH का स्तर उच्च होने पर थायरॉयड कैंसर होने का खतरा होता है।


- (a) 35 वर्ष की किसी महिला का TSH स्तर 6.03 mU/L है । इस स्तर को नियंत्रित करने के लिए उसे अपने भोजन में क्या परिवर्तन करना चाहिए ?
- (b) महिलाएँ कब असामान्य TSH स्तर के अधिक संकट को सहती हैं ?
- (c) निम्न TSH स्तर के परिणाम का उल्लेख कीजिए।
- (d) थायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हॉर्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी खनिज का नाम लिखिए। 1

खंड – ख

- 15. नीचे दी गई प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए।
 - (i) वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया मिश्रण गरम हो जाता है।
 - (ii) वह अभिक्रिया जिसमें कोई अविलेय पदार्थ बनता है।

3

1



DEDNETICO DON ESCO DO ESCO DO ESCO DO ESCO DO ESCO

14. Questions numbers 14(a) to 14(d) are based on table given below. Study the table in which the levels of Thyroid Stimulating Hormone (TSH) in women are given and answer the questions that follow on the basis of understanding of the following paragraph and the related studied concepts.

Age Range	Normal (mU/L)	Low (mU/L)
18-29 years	$0.4-2.34~\mathrm{mU/L}$	< 0.4 mU/L
30-49 years	$0.4-4.0~\mathrm{mU/L}$	< 0.4 mU/L
50 - 79 years	$0.46-4.68~\mathrm{mU/L}$	< 0.46 mU/L

Women are at greater risk for developing abnormal TSH levels during menstruation, while giving birth and after going through menopause. Around 5% of women in the United States have some kind of thyroid problem compared to 3% of men. Despite claims that high TSH increases your risk for heart disease, a 2013 study found no link between high TSH and heart diseases. But a 2017 study showed that older women are especially at risk for developing thyroid cancer if they have high TSH levels along with thyroid nodules.

- (a) A 35 year old woman has TSH level 6.03 mU/L. What change should she bring in her diet to control this level ?
- (b) When do women face a greater risk of abnormal TSH level?
- (c) State the consequence of low TSH level.
- (d) Name the mineral that is responsible for synthesis of hormone secreted by thyroid gland.

Section - B

15. Identity the type of each of the following reactions.

Also write balanced chemical equation for each reaction.

- (i) A reaction in which the reaction mixture becomes warm.
- (ii) A reaction in which an insoluble substance is formed.

3

1

DECK END DOK END ENKEND ENKEND ENKEND ENKEND ENKEND ENKEND ENKEND ENKEND EN END ENKENDEN ENDE EN END ENKENDEN

16. नीचे दिए गए तीन वर्गों A, B और C के आँकड़ों का अध्ययन कीजिए।

वर्ग	तत्त्व का प्रतीक	परमाणु द्रव्यमान
	Li	7
A	Na	23
	K	39
	N	14
В	P	31
	As	74
	В	10.8
C	Al	27
	Ga	69.7

- (i) दिए गए तीन वर्गों A, B और C में से उस वर्ग को चुनिए जो डॉबेराइनर का त्रिक बनाता है।
- (ii) मेन्डेलीफ ने इन तीन वर्गों A, B और C के तत्त्वों को तीन विभिन्न समूहों (ग्रुपों) में क्यों रखा ?
- (iii) क्या न्यूलैंड्स का अष्टक नियम इन तीनों वर्गों पर लागू होता है ? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए।

3

3

3

3

3

- 17. नीचे दिए गए रासायनिक समीकरणों को पूरा और संतुलित कीजिए :
 - (i) NaOH_(aq) + $Zn_{(s)} \rightarrow$
 - (ii) $CaCO_{3(s)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)} \rightarrow$
 - (iii) $HCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow$

अथवा

लवण जल (ब्राइन) के विद्युत अपघटन के समय एनोड पर कोई गैस 'G' मुक्त होती है। जब इस गैस 'G' को बुझे हुए चूने से प्रवाहित किया जाता है, तो कोई यौगिक 'C' बनता है जिसका उपयोग पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है।

- (i) 'G' और 'C' के सूत्र लिखिए।
- (ii) होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए।
- (iii) यौगिक 'C' का सामान्य नाम क्या है ? इसका रासायनिक नाम लिखिए।

18. (a) किसी पारितंत्र में मांसाहारियों की संख्या में कमी होने के परिणाम का कारण सहित उल्लेख कीजिए।

(b) किसी आहार शृंखला में हानिकर रसायनों की सांद्रता किस पोषीस्तर पर होती है ? ऐसा क्यों होता है ?

अथवा

ओज़ोन परत किस प्रकार बनती है ? पृथ्वी पर सभी जीवन स्वरूपों के लिए इसके महत्त्व का उल्लेख कीजिए। 1980 के दशक में वायुमण्डल में ओज़ोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट क्यों आई ? DECK DICE DO A DICE

16. Study the data of the following three categories A, B and C.

Category	Name of the element	Atomic Mass
	Li	7
A	Na	23
	K	39
	N	14
В	P	31
	As	74
	В	10.8
\mathbf{C}	$\mathrm{A}l$	27
-	Ga	69.7

- (i) From the given three categories A, B and C, pick the one which forms Dobereiner's Triads.
- (ii) Why did Mendeleev placed elements of category A, B and C in three different groups?
- (iii) Is Newland law of octaves applicable to all the three categories? Give reason to justify your answer.

17. Complete and balance the following chemical equations:

- (i) NaOH_(aq) + Zn_(s) \rightarrow
- (ii) $CaCO_{3(s)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)} \rightarrow$
- (iii) $HCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow$

OR

During electrolysis of brine, a gas 'G' is liberated at anode. When this gas 'G' is passed through slaked lime, a compound 'C' is formed, which is used for disinfecting drinking water.

- (i) Write formula of 'G' and 'C'.
- (ii) State the chemical equation involved.
- (iii) What is common name of compound 'C'? Give its chemical name.

18. (a) State with reason the consequence of decrease in number of carnivores in an ecosystem.

(b) In a food chain, state the trophic level at which the concentration of harmful chemicals is maximum. Why is it so?

OR

How is ozone layer formed? State its importance to all life forms on earth? Why the amount of ozone in the atmosphere dropped sharply in the 1980s?

3

3


3

3

- 19. (a) पाचन की प्रक्रिया में नीचे दिए गए एन्ज़ाइमों की भूमिका का उल्लेख कीजिए : ट्रिप्सिन एंजाइम (ii) लाइपेज एंजाइम क्षुद्रांत्र में उपस्थित अंगुली जैसे प्रवर्धों के दो कार्यों की सूची बनाइए। 3 किसी दिए गए हरे तने वाले गुलाब के पौधे को GG से दर्शाया गया है तथा भूरे तने वाले गुलाब के पौधे को gg से दर्शाया गया है। इन दोनों पौधों के बीच संकरण कराया गया है। नीचे दिए अनुसार अपने प्रेक्षणों की सूची बनाइए : इनकी F_1 संतित में तने का रंग, (i) यदि \mathbf{F}_1 संतित के पौधों का स्वःपरागण कराया जाए तो \mathbf{F}_2 संतित में भूरे तने वाले पौधों की प्रतिशतता, (iii) F_2 संतित में GG और Gg का अनुपात इस संकरण की जांच के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ? (b) 3 निम्नलिखित का समजात अंग और समरूप अंग में वर्गीकरण कीजिए : 21. (a) ब्रोकोली और पत्तागोभी (i) (ii) अदरक और मूली (iii) पक्षी की अग्रबाह् और छिपकली की अग्रबाह् (iv) चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख उस प्रमुख लक्षण का उल्लेख कीजिए जो दिए गए अंगों के युगल का वर्गीकरण समजात अथवा समरूप अंगों में करता है। 3 प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम लिखिए। 22. (a) जब वायु में गमन करती कोई प्रकाश किरण तिर्यकतः किसी काँच के स्लैब में प्रवेश करती है तो यह (b) पाया जाता है कि वह किरण स्लैब से आपितत किरण के समांतर निर्गत होती है। तथापि प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। इसे दर्शाने के लिए नामांकित प्रकाश किरण आरेख
- 23. (a) नामांकित किरण आरेख की सहायता से किसी काँच के प्रिज़्म से गुजरने वाले पतले एकवर्णी प्रकाश पुँज का पथ दर्शाइए।
 - (b) यदि इस एकवर्णी प्रकाश पुँज को श्वेत प्रकाश के पतले पुँज से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या होगा ?

3

अथवा



खींचिए ।

19.	(a)	State the role played by the following in the process of digestion.	
		(i) Enzyme trypsin	
		(ii) Enzyme lipase	
	(b)	List two functions of finger like projections present in the small intestine.	3
20.	_	reen stemmed rose plant denoted by GG and a brown stemmed rose at denoted by gg are allowed to undergo a cross with each other.	
	(a)	List your observations regarding	
		(i) Colour of stem in their F ₁ progeny	
		(ii) Percentage of brown stemmed plants in ${\bf F}_2$ progeny if ${\bf F}_1$ plants are self pollinated.	
		(iii) Ratio of GG and Gg in the F ₂ progeny.	
	(b)	Based on the findings of this cross, what conclusion can be drawn?	3
21.	(a)	Classify the following as homologous or analogous pairs: (i) Broccoli and Cabbage	
		(ii) Ginger and Raddish	
		(iii) Fore limbs of birds and lizard	
		(iv) Wings of a bat and Wings of a bird	
	(b)	State the main feature that categorises a given pair of organs as homologous or analogous.	3
22.	(a)	State Snell's law of refraction of light.	
	(b)	When a ray of light travelling in air enters obliquely into a glass slab, it is observed that the light ray emerges parallel to the incident ray but it is shifted sideways slightly. Draw a labelled ray diagram to illustrate it.	3
23.	(a)	With the help of labelled ray diagram show the path followed by a narrow beam of monochromatic light when it passes through a glass prism.	
	(b)	What would happen if this beam is replaced by a narrow beam of white light?	3

OR




- (a) कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोनों से पीड़ित है:
 - (i) इस दोष को किस प्रकार के लेंस संशोधित कर सकते हैं ?
 - (ii) इस प्रकार के लेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं ?
- (b) किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष के संशोधन के लिए + 3D के लेंस तथा निकट दृष्टि दोष के लिए -3D के लेंस की आवश्यकता होती है। इन दोषों को संशोधित करने वाले इन लेंसों की फोकस दृिरयाँ परिकलित कीजिए।

3


- 24. निम्नलिखित के कारण दीजिए :
 - (i) किसी धारावाही सीधी परिनालिका के सिरों के निकट चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ या तो अभिसरित करती है अथवा अपसारित होती हैं।
 - (ii) स्वतंत्रतापूर्वक निलंबित किए जाने पर धारावाही परिनालिका एक विशेष दिशा में ठहरती है।
 - (iii) पिघले (जले) फ्यूज़ तार को सर्वसम अनुमतांक के फ्यूज़ द्वारा ही प्रतिस्थापित (बदला) किया जाना चाहिए।

खंड – ग

- 25. (a) साबुनों और अपमार्जकों (डिटरजेन्टों) की तुलना उनके संघटनों और कठोर जल में सफाई प्रक्रिया के आधार पर कीजिए।
 - (b) क्या होता है जब एथेनॉल सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है ? इस अभिक्रिया में एथेनॉल के व्यवहार के विषय में उल्लेख कीजिए।
 - (c) साइक्लोहेक्सेन की संरचना खींचिए।
 - (d) नीचे दिए गए यौगिक का नाम लिखिए:



- 26. किसी धातु 'M' का भण्डारण किरोसिन में किया जाता है। यदि इस धातु का कोई छोटा टुकड़ा वायु में खुला रखा जाए तो वह तेज़ी से आग पकड़ लेता है। इस धातु के जल में विघटन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और इस धातु में आग लग जाती है। इस प्रकार बना विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है।
 - (a) धातु 'M' का नाम लिखिए।
 - (b) इस धातु को वायु में खुला रखने पर बने यौगिक का सूत्र लिखिए।



BON BIGG BO BIGG BON BIGG BON BIGG

- (a) A person is suffering from both myopia and hypermetropia.
 - (i) What kind of lenses can correct this defect?
 - (ii) How are these lenses prepared?
- (b) A person needs a lens of power + 3D for correcting his near vision and -3D for correcting his distant vision. Calculate the focal lengths of the lenses required to correct these defects.

3

3

- 24. Give reasons for the following:
 - (i) There is either a convergence or a divergence of magnetic field lines near the ends of a current carrying straight solenoid.
 - (ii) The current carrying solenoid when suspended freely rests along a particular direction.
 - (iii) The burnt out fuse should be replaced by another fuse of identical rating.

Section - C

- 25. (a) Compare soaps and detergents on the basis of their composition and cleansing action in hard water.
 - (b) What happens when ethanol is treated with sodium metal? State about the behaviour of ethanol in this reaction.
 - (c) Draw the structure of cyclohexane.
 - (d) Name the following compound.

$$\begin{array}{c|c} & H \\ | \\ H - C - C - H \\ | & | \\ O & H \end{array}$$

5

- 26. A metal 'M' is stored under kerosene. It vigorously catches fire, if a small piece of this metal is kept open in air. Dissolution of this metal in water releases great amount of energy and the metal catches fire. The solution so formed turns red litmus blue.
 - (a) Name the metal 'M'.
 - (b) Write formula of the compound formed when this metal is exposed to air.

.31/3/3.

DECK MOD BOX MOD	(c)	धातु 'M' का किरोसिन में भण्डारण क्यों किया जाता है ?	
	(d)	यदि इस धातु के ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाए तो कौन सा उत्पाद	
		बनेगा ?	
	(e)	निम्नलिखित के लिए संतुलित समीकरण लिखिए :	
		(i) 'M' की वायु से अभिक्रिया	
		(ii) 'M' की जल से अभिक्रिया	
		(iii) धातु ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया	5
		अथवा	
	(a)	Ca (परमाणु संख्या 20) और O (परमाणु संख्या 8) की इलेक्ट्रॉन–बिन्दु संरचना लिखिए ।	
	(b)	इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा कैल्सियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए ।	
	(c)	इस यौगिक में उपस्थित आयनों के नाम लिखिए।	
	(d)	इस यौगिक के चार महत्त्वपूर्ण लक्षणों की सूची बनाइए।	5
27.	(a)	फुफ्फुस से मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर की यात्रा के चरणों को सही क्रम में लिखिए।	
	(b)	क्या होता है जब रुधिर वाहिकाओं के निकाय में कहीं कोई क्षरण हो जाता है ?	5
28.	(a)	किसी देश की समृद्धि के लिए आवश्यक मानव जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए गर्भनिरोध की कोई दो विधियाँ सुझाइए। प्रत्येक विधि की संक्षेप में व्याख्या भी कीजिए।	
	(b)	लैंगिक संचरण द्वारा होने वाले दो जीवाणु जनित और दो वाइरस संक्रमणों के नाम लिखिए।	
	(c)	लैंगिक क्रिया के समय कंडोम का उपयोग करने के दो लाभों की सूची बनाइए।	5
		अथवा	
	(a)	राइजोपस में बीजाणु समासंघ दर्शाने के लिए आरेख खींचिए ।	
	(b)	उदाहरण की सहायता से मुकुलन और खंडन की प्रक्रिया के बीच विभेदन कीजिए।	

- (c) कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है ?
- 29. (a) किसी बड़े शोरूम में उपयोग किए जा रहे सुरक्षा दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 m है। यदि कोई ग्राहक कैश काउन्टर से 20 m की दूरी पर खड़ा है, तो सुरक्षा दर्पण में बने उस ग्राहक के प्रतिबिम्ब की स्थिति, प्रकृति और साइज़ ज्ञात कीजिए।
 - (b) नेहा किसी दन्त चिकित्सक के क्लीनिक गई। उसने यह प्रेक्षण किया कि दन्त चिकित्सक ने एक यंत्र पकड़ा हुआ है जिसमें एक दर्पण लगा है। इस दर्पण की प्रकृति का उल्लेख कीजिए और दन्त चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाले यंत्र में इस दर्पण के लगे होने का कारण लिखिए।

5


अथवा



DECK SICO DON SIC	O BONESOO BONESOO BONE		
	(c)	Why is metal 'M' stored under kerosene?	
	(d)	If oxide of this metal is treated with hydrochloric acid, what would be the products?	
	(e)	Write balanced equations for:	
	` /	(i) Reaction of 'M' with air.	
		(ii) Reaction of 'M' with water.	
		(iii) Reaction of metal oxide with hydrochloric acid.	5
		OR	
	(a)	Write electron dot structures of Ca (At. No. 20) and O(At. No. 8).	
	(b)	Show the formation of calcium oxide by transfer of electrons.	
	(c)	Name the ions present in this compound.	
	(d)	List four important characteristics of this compound.	5
	()		
27.	(a)	Write the correct sequence of steps followed during journey of oxygen	
		rich blood from lungs to various organs of human body.	
	(b)	What happens when the system of blood vessels develop a leak?	5
28.	(a)	Suggest any two categories of contraceptive methods to control the size of human population which is essential for the prosperity of a country. Also explain about each method briefly.	
	(b)	Name two bacterial and two viral infections each that can get sexually transmitted.	
	(c)	List two advantages of using condom during sexual act.	5
		OR	
	(a)	Draw a diagram to show spore formation in Rhizopus.	
	(b)	With the help of an example differentiate between the process of Budding and Fragmentation.	
	(c)	Why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants?	5
20	(a)	A contribute mirror used in a hig showroom has radius of augusture	

- 29. (a) A security mirror used in a big showroom has radius of curvature 5 m. If a customer is standing at a distance of 20 m from the cash counter, find the position, nature and size of the image formed in the security mirror.
 - (b) Neha visited a dentist in his clinic. She observed that the dentist was holding an instrument fitted with a mirror. State the nature of this mirror and reason for its use in the instrument used by dentist.

OR



DECH ECO ECH ECO ECH ECO CHESCO ECH ECO ECH ECO

ऋषि किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के यहाँ अपनी हस्तरेखाएँ दिखाने गया । हस्तरेखा विशेषज्ञ ने इस कार्य के लिए एक विशेष प्रकार के लेंस का उपयोग किया ।

- (i) इस लेंस की प्रकृति का उल्लेख कीजिए और इस लेंस का उपयोग करने का कारण लिखिए।
- (ii) हस्तरेखा विशेषज्ञ को इस लेंस को कहाँ रखना चाहिए ताकि किसी बिम्ब का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिम्ब प्राप्त हो ?
- (iii) यदि इस लेंस की फोकस दूरी $10~{
 m cm}$ है तथा इस लेंस को हथेली से $5~{
 m cm}$ दूरी पर रखा गया है, तो लेंस सूत्र का उपयोग करके बनने वाले प्रतिबिम्ब की स्थिति और साइज़ ज्ञात कीजिए।

5

5

5

- 30. (a) किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक $200~\mathrm{V}$; $100~\mathrm{W}$ है । इसका प्रतिरोध क्या है ?
 - (b) यदि इस प्रकार के 3 बल्ब पूरे नवम्बर माह 10 घण्टे लगातार जलाए जाएँ, तो उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए।
 - (c) यदि 1 यूनिट का मूल्य ₹ 6.50 है तो कुल खर्च परिकलित कीजिए।

अशवा

- (a) "किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम है।" इस कथन का क्या अर्थ है ?
- (b) विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखिए । विद्युत शक्ति, विभवान्तर और प्रतिरोध में संबंध दर्शाने के लिए व्यंजक लिखिए ।
- (c) $132~\Omega$ प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व में संयोजित करें कि 220~V के विद्युत स्रोत के द्वारा इस संयोजन से 5~A धारा प्रवाहित हो।

Rishi went to a palmist to show his palm. The palmist used a special lens for this purpose.

- (i) State the nature of the lens and reason for its use.
- Where should the palmist place/hold the lens so as to have a real and (ii) magnified image of an object?
- (iii) If the focal length of this lens is 10 cm, the lens is held at a distance of 5 cm from the palm, use lens formula to find the position and size of the image.

5

5

5

An electric bulb is rated at 200 V; 100 W. What is its resistance? 30. (a)

- Calculate the energy consumed by 3 such bulbs if they glow (b) continuously for 10 hours for complete month of November.
- Calculate the total cost if the rate is ₹ 6.50 per unit. (c)

OR

- What is meant by the statement, "The resistance of a conductor is (a) one ohm"?
- (b) Define electric power. Write an expression relating electric power, potential difference and resistance.
- How many 132 Ω resistors in parallel are required to carry 5 A on a 220 V line?

DECK EIGE DON EIGE DON DICH DON DICH DON EIGE DON EIGE

